

अगस्त 08, 2025

**बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट) बीएसबीडीए (ग्राहकों के लिए सूचना**

प्रिय ग्राहक,

बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट) बीएसबीडीए (के लिए मौजूदा केवाईसी और एएमएल और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहकों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा;

1. एक वित्तीय वर्ष में सभी जमा राशियों का कुल योग एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. एक माह में सभी निकासी और स्थानान्तरण का कुल योग दस हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए; और
3. किसी भी समय शेष राशि पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।
4. खाता शुरू में बारह महीने की अवधि के लिए चालू रहेगा जिसे बारह महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते खाताधारक उक्त खाता खोलने के पहले बारह महीनों के दौरान किसी भी ओवीडी के लिए आवेदन करे और उसका प्रमाण प्रस्तुत करे।
5. जब तक ग्राहक की पहचान पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाती, तब तक विदेशी धन प्रेषण की अनुमति नहीं दी जाएगी और खाते में जमा नहीं किया जाएगा।
6. बीएसबीडी खाते के धारक आईडीबीआई बैंक में कोई अन्य बचत खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे।
7. यदि किसी ग्राहक का उस बैंक में कोई अन्य मौजूदा बचत खाता है, तो उसे बीएसबीडी खाता खोलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे बंद करना होगा।

हम सभी ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे उपरोक्त दिशानिर्देशों का ध्यान रखें। किसी भी प्रश्न/सहायता के लिए कृपया शाखा से संपर्क करें।

ह/-

महाप्रबंधक

खुदरा बैंकिंग समूह

आईडीबीआई बैंक लि.